



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 17—फरवरी 23, 2007 (माघ 28, 1928)
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 17—FEBRUARY 23, 2007 (MAGHA 28, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 29 जनवरी 2007

सं. ए-34011/2/06-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री आर. एस. तोमर, को 27 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में, अधीक्षक, राष्ट्रपति उद्यान, के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. एस. राणा, उप सचिव

दिनांक 1 फरवरी 2007

सं. ए-39011/9/06-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री एम. ए. सिद्दीकी, अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय, 31 जनवरी, 2007 के अपराह्न से अधिवर्षिता अवधि के बाद सेवानिवृत्त हो गये हैं।

आर. एस. राणा, उप सचिव

सं. ए-34011/4/06-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्रीमती एच. के. उप्पल, सहायक, को 1 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में, अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. एस. राणा, उप सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. आरएस./1524/स्था.(कार्मिक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री देवी दास, निदेशक 31 जनवरी, 2006 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गये।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

सं. आरएस./6(iv)/2007/12-कार्मिक--डॉ. प्रसन्नजीत बोस, अध्यक्ष, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति (श्री सीताराम येचुरी) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में राज्य सभा सचिवालय में सह-पदावसान के आधार पर नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 31 दिसम्बर, 2006 के अपराह्न से समाप्त कर दी गई हैं।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

सं. आरएस./6(iv)/2007/13-कार्मिक--श्री वीरैया कौंडूरी को राज्य सभा सचिवालय में 1 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वरिष्ठ निजी

सचिव के रूप में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति (श्री सीताराम येचुरी) के वैयक्तिक स्टाफ में किया गया है।

2. श्री वीरैया कौंडुरी की नियुक्ति राज्य सभा में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और यह उनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जायेगी।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2007

सं. आरएस./1706/स्था.(कार्मिक)--श्री टी. नाहासामी, वरिष्ठ संसदीय भाषांतरकर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध को स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप वह 1 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

सी. बी. राय, अवर सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

राष्ट्रीय प्राधिकरण

रासायनिक हथियार समझौता

नई दिल्ली-110021, 8 जनवरी 2007

सं. ए.12018/1/2004-एन ए--भारत के राजपत्र में 15 जनवरी, 2004 को पृष्ठ 59 से 63 में प्रकाशित किए गए राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय (समूह 'क' और समूह 'ख' पर) भर्ती नियम, 2004 (अंग्रेजी रूपांतर) के अंतर्गत उप निदेशक के पद से संबंधित अनुसूची के अधीन स्तम्भ (12) के नीचे पैरा क (ii) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:--

(क) (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8,000—13,500/- रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 6,500—10,500/- रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो; और

राजू शर्मा, संयुक्त सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी 2007

सं. ए-12025/01/2005-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के कस्बा और राष्ट्रीय योजना संगठन में अनुसंधान सहायक, श्री गजानन माली को योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 25.01.2007 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए, या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति करते हैं।

आर. के. परमार, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 जनवरी 2007

सं. 181/1/2006/1388--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को 31 अगस्त, 2006 से आगामी आदेशों तक के लिए भारत निर्वाचन आयोग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

1. श्री तपस कुमार
2. श्री शंगारा राम (अ. जा.)
3. श्री के. अजय कुमार
4. श्री आर. के. श्रीवास्तव

राजेश अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 जनवरी 2007

सं. ए-20/जी-बी/89--आयोग की दिनांक 8 फरवरी, 2006 की अधिसूचना के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में, प्रधान निजी सचिव श्री सी. पी. शर्मा, की प्रतिनियुक्ति की पदावधि दिनांक 31.01.2008 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, एतद्वारा बढ़ाई जाती है।

स्टैंडहोप युहलुंग, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. 193/22/1/2007(एमएल)/1450--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारत निर्वाचन आयोग में अवर सचिव, श्री मोहन लाल दिनांक 31.01.2007 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गये।

स्टैंडहोप युहलुंग, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसंबर 2006

सं. ए-32015/3/2006-प्रशा. IV(वि.का.)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.05.2006 के का. जा. सं. 5/8/2006-सी.एस.-II के अनुसरण में तथा श्रीमती आर. कलई सेल्वी, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की ग्रेड 'ग' आशुलिपिक द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, उन्हें रु. 6,500—10,500/- के वेतनमान में दिनांक 31.05.2006 से 31.12.2006 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त प्रोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर की गई है तथा इससे उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा उपरोक्त अवधि के लिए

ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

वी. रवींद्रन, अवर सचिव

चेन्नै, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

सं. ए-38013/1/2006-प्रशा./चेन्नै--विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, चेन्नै में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की निजी सचिव, श्रीमती मैथिली बालाचन्द्रन अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 31 दिसम्बर 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई हैं।

आर. राजगम, अपर विधि सलाहकार

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2007

सं. ए-32015/3/2006-प्रशा.IV(वि.का.)--इस विभाग के दिनांक 14.07.2006, 21.07.2006, 03.08.2006, 11.09.2006, 20.12.2006 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.12.2006 के का. ज्ञा. सं. 5/8/2006-सी.एस.-II के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों की विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में 6,500—10,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्ति की अवधि को दिनांक 30.06.2007 तक अर्थात् अगले छह महीने के लिए अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) नियमित आशुलिपिक उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

क्रम सं.	नाम	तैनाती का वर्तमान स्थान
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	श्रीमती नवलजीत कौर चई	विधि कार्य विभाग
2.	वी. एस. राठौर	विधि कार्य विभाग
3.	टी. एस. पांडियन	विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, चेन्नै
4.	वीरेन्द्र कुमार जाटव	विधायी विभाग
5.	सुश्री राजलक्ष्मी श्रीधर	विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, मुंबई
6.	प्रदीप मुखर्जी	विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, कोलकाता
7.	एन. के. ग्रोवर	विधि कार्य विभाग, केन्द्रीय अधिकरण अनुभाग
8.	ओम प्रकाश शर्मा	विधि कार्य विभाग
9.	सुश्री बिमला वर्मा	विधि कार्य विभाग
10.	वी. आर. डी. नम्बूद्रीपाद	विधायी विभाग
11.	आर. वी. एस. भानुप्रसाद	विधि कार्य विभाग
12.	सुश्री नीलम खत्री	विधि कार्य विभाग

1	2	3
	सर्वश्री	
13.	मो. हुसैन	विधायी विभाग में गोपनीय अधीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर
14.	एस. के. चट्टराज	विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, कोलकाता
15.	सुश्री पी. के. सती देवी	विधि कार्य विभाग
16.	सतीश चन्द्रा	विधि कार्य विभाग
17.	सुश्री मंजुबाला मेहता	विधि कार्य विभाग, विधि आयोग
18.	एस. सी. अग्रवाल	विधि कार्य विभाग, विधि आयोग
19.	सुश्री राशि गुप्ता	विधि कार्य विभाग
20.	सुश्री इन्दू चौपड़ा	विधि कार्य विभाग, विधि आयोग
21.	ए. के. सूद	विधि कार्य विभाग, विधि आयोग
22.	आर. के. वैद	विधायी विभाग
23.	महेश कुमार (अनु. जा.)	विधि कार्य विभाग
24.	सुरेन्द्र सिंह (अनु. जा.)	विधायी विभाग
25.	सुश्री एस. के. धवन	विधायी विभाग
26.	आर. एस. शुक्ला	विधि कार्य विभाग
27.	सुश्री आर. कलाई सेलवी	विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, बंगलौर

2. उपरोक्त प्रोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और इससे उन्हें ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) (निजी सचिव) में उपरोक्त अवधि के लिए वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 5 जनवरी 2007

सं. के-13016/6/2006-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री विद्या भूषण गुप्ता को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राजीव अग्रवाल, अपर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2007

सं. पी एफ/जी/195-प्रशा.V--राष्ट्रपति, श्री जी. श्रीनिवास राव, सहायक निदेशक (एफसीआरए) को दिनांक 31.01.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति आधार पर गृह मंत्रालय में रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

नई दिल्ली-110066, दिनांक 15 जनवरी 2007

सं. 35/9/2005/प्रशा.-1(बी)/रा.अ.रि.ब्यूरो--राष्ट्रपति सहर्ष श्री अनिल चावला, श्री जैकबपाल तथा श्री बी. आर. प्रसाद, निरीक्षको (अं.छ.) को पदोन्नत होने के फलस्वरूप राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के केन्द्रीय अंगुल छाप ब्यूरो में उप-अधीक्षक (अं.छ.) के पद पर रु. 6,500-200-10,500/- + रु. 400/- विशेष भत्ता के वेतनमान में नियुक्त करते हैं। श्री अनिल चावला विभागीय पदोन्नति समिति की तिथि दिनांक 08.11.2006 से तथा श्री जैकबपाल और श्री बी. आर. प्रसाद दिनांक 07.12.2006 से पदोन्नत किए जाते हैं।

भूपेन्द्र सिंह धूपिया, सहायक निदेशक (प्रशा.)

अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 5 जनवरी 2007

सं. ए-19011/4/2006-अ.रा.प.(प्रशा.)--राष्ट्रपति, श्री के. पी. मिश्रा, निदेशक, के. स. से. को 21 दिसम्बर, 2006 पूर्वाह्न से अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय में निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. बी. राजप्पन, उप सचिव

नई दिल्ली-11, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. ए-19011/5/2006-अ.रा.प.(प्र.)--राष्ट्रपति, श्री अतुल कुमार गुप्ता, परामर्शी, भा. प्र. से. (उ. प्र. 74) को 29 दिसम्बर, 2006 पूर्वाह्न से अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय में भारत सरकार के अपर सचिव स्तर एवं वेतनमान में परामर्शी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुधीर कुमार, उप सचिव

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 1 फरवरी 2007

सं. 4/16/2005-एन ई सी-1--राष्ट्रपति, श्री एच वनलालहलुता, आई ए एवं ए एस (82) को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में दिनांक 25 जनवरी, 2007 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों के लिए या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, वित्तीय सलाहकार नियुक्त करते हैं।

सुरेन्द्र कुमार नय्यर, उप सचिव

दिनांक 2 फरवरी 2007

सं. 1/5/2006-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री पंकज अस्थाना, भा.व.से. (यू टी : 88) को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में दिनांक 01 फरवरी, 2007 (अपराह्न) से पांच वर्षों के लिए या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, निदेशक नियुक्त करते हैं।

सुरेन्द्र कुमार नय्यर, उप सचिव

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली-110067, दिनांक 17 जनवरी 2007

सं. 13019/15/2006-अकादमी(डैस्क)--राष्ट्रपति, डॉ. एस. एच. खॉं, आई. डी. ई. एस. (91) को 21.03.2006 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उप निदेशक (उप सचिव स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

चानन राम, अवर सचिव

सं. 13019/14/2006-अकादमी(डैस्क)--राष्ट्रपति, श्री आलोक कुमार, भा. प्र. से. (उत्तर प्रदेश : 93) को 01.11.2006 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में 12,750-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उप निदेशक (उप सचिव स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

चानन राम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2007

सं. 14015/11/2006-अ.भा.से.(1)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम 3 में निहित प्रावधानों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्नाटक संवर्ग में वर्ष, 2003, 2004, 2005 और 2006 के दौरान रिक्त चल रहे क्रमशः दो (02), छः (06) और एक (01) पदों को भरने के लिए दिनांक 2 नवम्बर को आयोजित बैठक में चयन समिति द्वारा तैयार की गई, कर्नाटक राज्य के राज्य-सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नामों से युक्त वर्ष, 2003, 2004, 2005 और 2006 के चयन सूचियों का अनुमोदन कर दिया है:--

वर्ष 2003 की चयन सूची

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि
	सर्वश्री	
1.	सी. सोमशेखर	09.06.1954
2.	वी. बी. पाटिल	19.09.1954

वर्ष 2004 की चयन सूची

1.	के. आर. निरंजन	26.07.1954
2.	आर. नारायणस्वामी	12.01.1950

वर्ष 2005 की चयन सूची

1.	जी. रामचन्द्र	05.06.1952
2.	आर. के. राजू	10.06.1953
3.	पी. एस. वास्त्रद	10.07.1956

4. बी. शिवप्पा (अनु.ज.जा.)	18.10.1951
5. एम. के. बालदेवकृष्ण (अनु.जा.)	10.06.1953
6. एम. ई. शिवलिंगमूर्ति	30.11.1953

वर्ष 2006 की चयन सूची

1. टी. ए. पार्थासारथी	10.03.1953
-----------------------	------------

जगन लाल, अवर सचिव

सं. 14015/11/2006-अ.भा.से.(1)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति, कर्नाटक राज्य-सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में वर्ष, 2003, 2004, 2005 और 2006 की रिक्तियों हेतु परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अनुसार उन्हें कर्नाटक संवर्ग आबंटित करते हैं:-

वर्ष 2003 की चयन सूची

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
	सर्वश्री
1.	सी. सोमशेखर
2.	वी. बी. पाटिल

वर्ष 2004 की चयन सूची

1.	के. आर. निरंजन
2.	आर. नारायणस्वामी

वर्ष 2005 की चयन सूची

1.	जी. रामचन्द्र
2.	आर. के. राजू
3.	पी. एस. वास्त्रद
4.	बी. शिवप्पा (अनु.ज.जा.)
5.	एम. के. बालदेवकृष्ण (अनु.जा.)
6.	एम. ई. शिवलिंगमूर्ति

वर्ष 2006 की चयन सूची

1.	टी. ए. पार्थासारथी
----	--------------------

जगन लाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. ए-32013/2/2006-प्रशा.1(जी)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी श्री ए. के. श्रीवास्तव, जो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. ए-32013/2/2006-प्रशा.1(जी)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी श्री एस. के. अरोड़ा, जो वस्त्र मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को दिनांक 23 नवम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. ए-32013/2/2006-प्रशा.1(जी)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी श्री चनन राम, जो नागर विमानन मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को दिनांक 1 नवम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

दिनांक 1 फरवरी 2007

सं. ए-32013/4/2006-प्रशा.1(जी)--राष्ट्रपति, श्री सत्यानन्द मिश्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम. पी. : 73) को दिनांक 1 फरवरी, 2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय) में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. ए-32013/3/2007-प्रशा.1(जी)--राष्ट्रपति, 1973 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों, जो कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे, को उनके द्वारा धारित पद पर स्वस्थाने द्वारा दिनांक 02.01.2007 से 31.01.2007 तक की अवधि के लिए सचिव के रैंक और वेतन अर्थात् 26,000/- रु. (नियत मूल वेतन) में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

(i) श्री सत्यानन्द मिश्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम. पी. : 73)

(ii) श्रीमती रजनी राजदान, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एच. वाई. : 73)

(iii) श्री ब्रह्म दत्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा (के. एन. : 73)

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 2007

सं. 14013/01/2000-अ.भा.से.(III)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश राज्य संवर्ग से अपनी सेवा शुरू करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तारीख
1.	श्री मार्कण्डेय सिंह	1990	22.09.1999
2.	श्री राजीव कुमार सिंह	1990	22.09.1999

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. ए-19014/1/2007-प्र.सु.(प्रशा.1)--राष्ट्रपति, श्री के, संजयन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में दिनांक 31 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनुराग श्रीवास्तव, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2007

सं. क्यू/पी/ए-1/7/2007--राष्ट्रपति, वर्तमान रूप से भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों को 16 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से सेवा के ग्रेड-IV में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	मौजूदा ग्रेड	प्रोन्नति के पश्चात्
1.	श्री एम सुब्बारायुडू	भा.वि.से. का कनि. प्रशा. ग्रेड	भा.वि.से. का ग्रेड-IV

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV पर प्रोन्नति होने पर उक्त अधिकारी ने 16.01.2007 के पूर्वाह्न से भा.वि.से. के कनिष्ठ प्रशा. ग्रेड में अपने पद से कार्यमुक्त होकर उसी तारीख के पूर्वाह्न से ग्रेड-IV में पद प्रभार ग्रहण कर लिया है।

अरिंदम बागची, उप सचिव (एफ एस पी)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2007

सं. 01/पीबी-II/2007--राष्ट्रपति, भा.वि.से. (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-II के अधिकारी श्री डोलामणि मेहर को 2 जनवरी, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सी.ए.डी./611/4/2003 के अनुरूप

14 जुलाई, 2005 से उसी संवर्ग के ग्रेड-I में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

डी. के. भट्टाचार्या, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-II)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 2006

सं. 94 (फा. सं. ए-19014/48/2004-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री एच. एस. मेहेंदिया, जो वर्तमान में राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ आधार पर) के रूप में कार्य कर रहे हैं और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त संवर्ग के नियमित सहायक हैं उन्हें वरिष्ठता कोट्य के प्रति वर्ष 2003 की के. स. से. के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयनसूची में उनका नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप, दिनांक 21.11.2006 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश होने तक, राजस्व विभाग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 15 दिसम्बर 2006

सं. 96 (फा. सं. ए-38011/10/2006-प्रशासन-1)--राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1969) की अधिकारी, सुश्री एम. एच. खेरावाला, समझौता आयोग (आयकर/धनकर), मुम्बई में सदस्य के रूप में कार्यभार संभालने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के तहत दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 (पूर्वाह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 02 जनवरी 2007

सं. 1: (फा. सं. ए-38011/9/2006-प्रशासन-1)--केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग में सदस्य के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 69) की अधिकारी, सुश्री बलजीत मटियानी आयकर लोकपाल, दिल्ली के रूप में कार्यभार संभालने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के तहत दिनांक 31 दिसम्बर, 2006 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 2: (फा. सं. ए-38011/11/2006-प्रशासन-1)--केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग में सदस्य के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 69) के अधिकारी, श्री राजीव रंजन सिंह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2006 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 3: (फा. सं. ए-38011/10/2006-प्रशासन-1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री बी. के. भारद्वाज अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2006 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 4: (फा. सं. ए-38013/9/2006-प्रशासन-1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री निर्बान आचार्य अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2006 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 8 जनवरी 2007

सं. 06: (फा. सं. ए-19011/1/2007-प्रशा.-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री आर. एन. उपाध्याय, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1971) को दिनांक 04.01.2007 (पूर्वाह) से और अगले आदेश तक, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 07: (फा. सं. ए-19011/2/2007-प्रशा.-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री पी. के. मिश्रा-II, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1971) को दिनांक 04.01.2007 (पूर्वाह) से और अगले आदेश तक, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 08: (फा. सं. ए-19011/3/2007-प्रशा.-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री ए. जे. मजूमदार, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1971) को दिनांक 04.01.2007 (पूर्वाह) से और अगले आदेश तक, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.) में सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 09: (फा. सं. ए-19011/4/2007-प्रशा.-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री बी. बालागोपाल, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (1977) को दिनांक 03.01.2007 (अपराह) से उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक अर्थात् 30.06.2011 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 10: (फा. सं. ए-19011/5/2007-प्रशा.-1)--भारत के राष्ट्रपति, सुश्री इंदिरा भार्गव, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 1970) को दिनांक 31.12.2006 (अपराह) से और अगले आदेश तक, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 2006

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)
स्थापन

सं. 53/2006 फा.सं. ए-38012/26/2006-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, भूलभूत नियमावली-56(के) के अंतर्गत श्री राजन सूरी, अपर निदेशक, राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क एवं स्वापक अकादमी, हजारीबाग का दिनांक 6 दिसम्बर, 2006 से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को मंजूर करते हैं। स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस की मंजूरी कोलकाता उच्च न्यायालय (2001 की रिट याचिका सं. 616), उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक (2002 की रिट याचिका सं. 36571, और दिल्ली उच्च न्यायालय 2004 की रिट याचिका सं. 14949-51) में लंबित कानूनी कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई है।

उपर्युक्त न्यायालय मामलों में पारित आदेशों के अध्यक्षीन, सरकार कानून के अनुसार श्री सूरी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में समुचित दाण्डिक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 15 जनवरी 2007

सं. 02/2007 फा.सं. ए-38012/37/2006-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, श्री एस. डी. गदकारी, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे-II द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए दिए गये नोटिस की वापसी को सहर्ष स्वीकार करते हैं। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए दिया गया नोटिस अधिसूचना सं. 54/2006 दिनांक 08.12.2006 के तहत स्वीकार किया गया था।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2007

सं. 1/2007 फा.सं. ए-32012/1/2004-प्रशा.-2ख(खण्ड-II)--राष्ट्रपति, श्री नरेन्द्र कुमार, रसायन परीक्षक, ग्रेड-I, केन्द्रीय रोजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को उनकी पदोन्नति पर दिनांक 16.10.2006 से अगले आदेश तक 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में केन्द्रीय राजस्व रसायन सेवा में संयुक्त निदेशक के पद पर स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं।

सुषमा कटारिया, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2007

सं. ए-12011/01/2006-प्रशा.2--राष्ट्रपति, इस विभाग की दिनांक 24.07.2006 की अधिसूचना सं. ए-12011/23/2005-प्रशा.2 के अनुक्रम में वित्त संवर्ग के सीएसएसएस के निम्नांकित प्रधान निजी सचिवों की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में समान क्षमता में नियुक्ति को और छः माह की अवधि के लिए 01.01.2007 से 30.06.2007 तक या नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :-

- (i) श्री के. रघुरमन
- (ii) श्री एम. एस. शर्मा
- (iii) श्री आर. प्रदीप कुमार
- (iv) श्री राजकुमार

2. उपर्युक्त कर्मचारियों की तदर्थ प्रोन्नति से उन्हें नियमित नियुक्ति या सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण या अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए पात्रता हेतु नहीं की जाएगी और चयन सूची के उम्मीदवार उपलब्ध होने पर उन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. ए-12011/09/2006-प्रशा.2--इस विभाग के दिनांक 11 जुलाई, 24 जुलाई, 28 जुलाई और 22 अगस्त, 2006 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के क्रम में, राष्ट्रपति, वित्त संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएसएस) के निम्नलिखित ग्रेड "सी" स्टेनोग्राफरों की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएसएस) के स्टेनोग्राफर ग्रेड "ए और बी" (सम्मिलित) के ग्रेड में (निजी सचिव के रूप में पदनामित) नियुक्ति की अवधि को दिनांक 01.01.2007 से 30.06.2007 तक या नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं:-

1. श्रीमती रेखा गुप्ता
2. श्री अनिल कुमार मिश्रा
3. श्रीमती नीरजा जयारमन
4. श्रीमती संतोष मल्होत्रा
5. श्रीमती रमा मूर्ध
6. श्री जे. पी. रोहिल्ला
7. श्रीमती सुनीता वर्मा
8. श्रीमती कमलेश जुनेजा

9. श्रीमती सरला अजबानी

10. श्री योगेश कुमार

2. उपर्युक्त "ग्रेड-सी" स्टेनोग्राफरों की स्टेनोग्राफर ग्रेड "ए और बी" (सम्मिलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) में तदर्थ नियुक्ति निम्नांकित निबंधन और शर्तों के अधीन होगी:-

- (क) तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त कर्मचारियों को ग्रेड में असीमित काल तक बने रहने या सीएसएसएस के ग्रेड "ए और बी" (सम्मिलित) (निजी सचिव) हेतु नियमित नियुक्ति के लिए चयनसूची में उनका नाम शामिल किए जाये अथवा उक्त ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ख) तदर्थ नियुक्तियों को कभी भी बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 2007

सं. ए-19011/7/2005-प्रशा.2--राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में अवर सचिव श्री अशोक चावला, भा.प्र.से. (गुजरात: 73) को उनके द्वारा धारित पद का इन-सीटू उन्नयन करके इसी विभाग में दिनांक 02 जनवरी, 2007 (पूर्वाह) से सचिव के रैंक और वेतन में विशेष सचिव नियुक्त करते हैं।

एस. के. वर्मा, उप सचिव

बैंकिंग प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 06 फरवरी 2007

सं. ए-12034/4/2004-स्था.--राष्ट्रपति, श्री एस. सी. आर्य, नियमित अनुसंधान अधिकारी, बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, को 01 फरवरी, 2007 के पूर्वाह से, नियमित पदोन्नति आधार पर, अगले आदेश होने तक, 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (समूह "क") के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. पी. एस. सांगवान, अवर सचिव

सं. ए-12034/4/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग में नियमित अनुसंधान अधिकारी, श्री राजीव कुमार को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर 1 फरवरी, 2007 के पूर्वाह से छः महीने की अवधि के लिए अथवा प्रतिनियुक्ति से नियमित पदधारी के प्रत्यावासान तक अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ नियुक्ति से राजीव कुमार को अनिश्चितकाल के लिए ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अथवा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकारी प्राप्त नहीं होगा।

एस. पी. एस. सांगवान, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. ए-12026/3/2005-प्रशा.1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री सुनील कुमार रंजन को दिनांक 17 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से एवं अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:--

- (क) तदर्थ नियुक्ति इस ग्रेड में बने रहने या चयन सूची में नियमित नियुक्ति के लिए शामिल किए जाने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी।
- (ख) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

मीताली घोष, अवर सचिव

(विनिवेश विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 01 फरवरी 2007

सं. 9/1/2007-प्रशासन/स्थापना--श्री पी. वी. भिडे, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आंध्र प्रदेश : 1973) ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (विनिवेश विभाग) में 01 फरवरी 2007 के पूर्वाह्न से सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. के. बन्दोपाध्याय, उप सचिव

कम्पनी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 जनवरी 2007

सं. पी.एफ.जी.(922)/06-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, कम्पनी कार्य मंत्रालय के आदेश सं. ए-32011/5/2006-प्रशा.-II दिनांक 19.12.2006 के द्वारा श्री जी. के. गुप्ता को भारतीय कम्पनी विधि सेवा (आईसीएलएस) के वरिष्ठ समय-मान (विधि शाखा) में प्रोन्नत किए जाने पर उन्हें दिनांक 26.12.2006 के पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में कम्पनी कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में उप-निदेशक (निरीक्षण) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन. के. विग, अवर सचिव

दिनांक 4 जनवरी 2007

सं. पी.एफ.जी.(923)/06-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, कम्पनी कार्य मंत्रालय के आदेश सं. ए-32011/5/2006-प्रशा.-II दिनांक 19.12.2006 के द्वारा श्री एस. पी. कुमार को भारतीय कम्पनी विधि सेवा (आईसीएलएस) के वरिष्ठ समय-मान (लेखा शाखा) में प्रोन्नत किए जाने पर उन्हें दिनांक 20.12.2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में कम्पनी कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में उप-निदेशक (निरीक्षण) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन. के. विग, अवर सचिव

दिनांक 17 जनवरी 2007

सं. ए-12023/15/2006-प्रशा.-IV--राष्ट्रपति, श्रीमती नीलम गुसाई को दिनांक 28.11.2006 (पूर्वाह्न) से 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी), नई दिल्ली में निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन. के. विग, अवर सचिव

सं. ए-12023/15/2006-प्रशा.-IV--राष्ट्रपति, श्रीमती नीरजा शर्मा को दिनांक 27.11.2006 (पूर्वाह्न) से छः माह की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, के लिए तदर्थ आधार पर 7,500-250-12,000/- रु. के वेतनमान में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी), नई दिल्ली में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन. के. विग, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. 1/2007/6/1179/77/रच आर डी-1/691--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस कार्यालय के संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार श्री एच. एल. असवाल, 31.01.2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गये हैं।

आर. एस. बिष्ट, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2007

सं. 2/2007/6/2424/2007/मा. सं. वि.-1/695--डॉ. श्याम एस. अग्रवाल, भा.प्र.से. (आर.जे. 80) ने दिनांक 29 जनवरी, 2007 पूर्वाह्न से विदेश व्यापार महानिदेशालय में 18,400-500-22,400/- रु. के वेतनमान में अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार के पद का कार्यभार 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक सम्भाल लिया है।

मुकेश भटनागर, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2007

सं. 1/2007(ए-12022/11/2006-स्था.)--राष्ट्रपति श्री रंजन खन्ना, आईआरएस (सीएंडसीईएस - 94) को 23 जनवरी, 2007 के अपराह्न से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में वस्त्र मंत्रालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. पी. दत्त, अवर सचिव

दिनांक 2 फरवरी 2007

सं. 02/2007-ए-46011/13/2001-स्था.(.)--राष्ट्रपति वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई में अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त के पद पर डॉ. हरशरन दास, आईएस (यूपी : 86) का कार्यालय केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 22.01.2007 से आगे एस वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 22.01.2008 तक बढ़ाते हैं।

जे. पी. दत्त, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 2007

सं. ए-19011/30/2006-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री अतुल कौशिक, के. स.से.को 11.12.2006 के पूर्वाह्न से 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री अतुल कौशिक, के.स.से. ने उपर्युक्त तिथि को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है।

श्री प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 22 जनवरी 2007

सं. ए-19011/14/2005-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री एस. के. डंग की 12,000--16,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति को 30.06.2007 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में या नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के उपलब्ध हो जाने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं। यह विस्तार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 दिसंबर, 2006 के का. ज्ञा. संख्या 5/20/2005-सीएस-2 की शर्तों के अनुसार है।

2. श्री एस. के. डंग की 31.12.2006 से आगे वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ नियुक्ति की प्रकृति विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर है और इससे उन्हें अनिश्चित रूप से सीएसएस के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद में बने रहने या वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

श्री प्रकाश, अवर सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 2007

सं. 3/11/2004-स्था.--राष्ट्रपति श्री जी. श्रीनिवास, आई.ए.एस. (उड़ीसा : 90) को दिनांक 02.01.2007 (पूर्वाह्न) से 19.08.2009 तक की शेष अवधि अथवा अगले आदेशों, तक जो भी पहले हो खान मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

नवल किशोर, निदेशक

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. ए-32013/1/2005-प्रशासन--भारत के राष्ट्रपति, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग में कार्यरत श्री आर. एल. मीणा की संयुक्त सलाहकार के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 18.01.2007 से 6 माह की आगे अवधि के लिए अथवा सम्बन्धित पद के नियमित आधार पर भरे जाने अथवा अगले आदेशों, तक इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

ए. के. त्रिपाठी, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 22 दिसंबर 2006

सं. ए-19011/13/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति श्री उत्तम प्रकाश को 22.12.2006 (पूर्वाह्न) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव (के. स. स. ग्रेड-I) के रूप में नियुक्त करते हैं।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.12.2006 के आदेश सं. 5/8/2006-सी.एस.-I (डेस्क)(पी.टी.) की शर्तों के अनुसार, यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगी:--

- (i) उक्त तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देगी।
- (ii) उक्त तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय कोई कारण बनाए बिना समाप्त की जा सकती है।

इलांगबम राबर्ट सिंह, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2007

सं. ए-12011/11/2005-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री जे. एन. प्रजापति, जो उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित सहायक निदेशक (विधिक माप) और उप निदेशक (तदर्थ) के पद पर कार्यरत हैं, को दिनांक 17 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, भुवनेश्वर में उप निदेशक (विधिक माप) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. नायक, उप सचिव

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. ए-38012/6/2006-एस.आर.ए.--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के भंडारण एवं अनुसंधान प्रभाग के समूह-क सामान्य केन्द्रीय सेवा के श्री के. एच.

बोरकर, उप निदेशक (भं. एवं अनु.) अधिवर्षिता की आयु होने पर 31 दिसम्बर, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-38012/4/2006-एस.आर.ए.--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के समूह-क सामान्य केन्द्रीय सेवा के श्री आर. के. गोयल, सहायक निदेशक (भं. एवं अनु.) अधिवर्षिता की आयु होने पर 31 दिसम्बर, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2007

सं. जेड-16011/27/2006/आर. एण्ड पी. (आयु)/आरटीआई--पूर्ववर्ती आदेश सं. जेड-28015/4/2005-आयुष (स्था.-I), तारीख 05.09.2006 का अधिक्रमण करते हुए तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (I) के उपबंधों का अनुसरण करते हुए आयुष विभाग के निर्मांकित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित विशेष मामलों के बारे में सहायक जन सूचना अधिकारियों के रूप में पदनामित किया जाता है:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	दूरभाष	विषय-वस्तु
1	2	3	4	5
1.	श्री ए. के. निगम	अवर सचिव	23327671	क. शिक्षा नीति अनुभाग ख. शिक्षा और सहयोग (ई एंड सी) ग. अस्पताल और औषधालय घ. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ङ. आयुर्वेद होस्पिटल, लोधी रोड
2.	श्री ए. के. रणा	अवर सचिव	23327688	क. (आयुष-स्था. I) तकनीकी अधिकारियों/स्टाफ का प्रशासन ख. सतर्कता मामले ग. एपीसी, वीएलआईएम और एचपीएल से संबंधित फाईलें घ. आयुष औषधालयों का विस्तार ङ. विशेष सेल
3.	श्री बी. बी. शर्मा	अवर सचिव	23351932	क. सीसीआरयूपम, एनआईयूपम, सीसीआईएम, आईएमसीसी अधिनियम सहित यूनानी डेस्क ख. गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित आईईसी योजना से भिन्न घटक आईईसी कार्य ग. संसद समन्वय घ. बाह्यमूलक अनुसंधान/स्वर्णिम त्रिभुज साझेदारी

1	2	3	4	5
4.	श्री अंशुमन शर्मा	अवर सचिव	23351885	क. (आयुष-स्था. II) सचिवालय स्टाफ प्रशसन और सामान्य प्रशासन ख. योग और प्राकृतिक चिकित्सा डेस्क ग. आई सी और आई एच
5.	श्री एम. एल. सिद्धना	अवर सचिव	23327688	क. होमियो डेस्क ख. सूचना का अधिकार ग. (पी एंड सी) (जन शिकायत सहित)
6.	श्री जी. सी. गौड़	टी ओ (आयु.)	23351932	क. डी सी सी

वर्गीज सैमयुअल, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

सं. 27-2559/2004-स्था.-II--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी (अवर सचिव) श्री अशोक कुमार को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48(1) के अधीन 29 दिसम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 8 जनवरी 2007

सं. 12022/14/2005-स्था.-I--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग के संवर्ग में निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों (10,000—15,200/- रु.) की तदर्थ नियुक्ति की अवधि 30.06.2007 तक या नियमित पीपीएस उपलब्ध होने तक या आगामी आदेशों तक, इसमें जो पहले हो, बढ़ाते हैं:--

1. श्री सुनील कुमार कथूरिया
2. श्री सतीश कुमार गुप्ता
3. श्री एस. पी. वर्मा
4. श्री वी. के. वर्मा
5. श्री डी. डी. साधवानी
6. श्री हरिन्द्र कुमार
7. श्रीमती अंबिका चंगरानी
8. श्री राम सेवक

2. पीपीएस के पद पर उक्त अधिकारियों की तदर्थ पदेनति 31.12.2006 के पश्चात् जारी रहना पूर्णतया तदर्थ प्रकृति का है और इससे पीपीएस के ग्रेड में पद पर अनिश्चित रूप से बने रहने या वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार उनको प्राप्त नहीं होगा।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 17 जनवरी 2007

सं. 19011/523/07-स्थापना-II--राष्ट्रपति श्री श्रीनारायण को कृषि एवं सहकारिता विभाग में 14300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से पदोन्नति के आधार पर निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 18 जनवरी 2007

सं. 32011/14/2006-स्था.-I--राष्ट्रपति कृषि एवं सहकारिता विभाग के निम्नलिखित सहायक निदेशकों (फसल) की उसी विभाग में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में सहायक आयुक्त (फसल) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से 6 माह के लिए या नियमित नियुक्ति किये जाने तक, इसमें जो पहले हो, बढ़ाते हैं।

- (i) श्री सी. वाई. बारापात्रे - 17.01.2007
- (ii) श्री ओम प्रकाश चौधरी - 11.01.2007
- (iii) श्री आर. एन. वर्मा - 11.01.2007

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 22 जनवरी 2007

सं. 27-2700/2007-स्था.-I--राष्ट्रपति ने श्री खुशवंत सिंह सेठी, भारतीय विदेश सेवा (एमटी : 90) को कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 15 जनवरी, 2007 की अपराह्न से 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 23 जनवरी 2007

सं. 12023/4/2004-स्था.-II(स्था.-V)--राष्ट्रपति कृषि विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार में सहायक निदेशक श्री एम. पी. अदरना कुमार को 12 दिसम्बर, 2006 की पूर्वाह्न से प्रतिनियुक्ति के आधार पर कृषि एवं सहकारिता विभाग में 10,000-15,200/- रुपये के वेतनमान में तीन वर्षों की अवधि अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, तक सहायक आयुक्त (गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमाणीकरण) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 24 जनवरी 2007

सं. 19011/521/2007-स्था.-II--राष्ट्रपति ने श्री राकेश अग्रवाल, आईएसएस को कृषि एवं सहकारिता विभाग में दिनांक 08.12.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 8,000-13,500/- रुपये समूह— 'क' राजपत्रित

के वेतनमान में सहायक निदेशक (उर्वरक सांख्यिकी), (समूह 'क' राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया है।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 29 जनवरी 2007

सं. 19011/4862/05-स्था.-II--कृषि एवं सहकारिता विभाग में श्री एन. एस. ठाकुर, सहायक निदेशक (फसल) अधिवर्षिता की आयु होने पर 31 जनवरी, 2007 की अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त होते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. 19011/518/06-स्था.-II--श्री एम. एस. बिष्ट, सहायक निदेशक (रा. भा.) कृषि एवं सहकारिता विभाग में सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर 31 जनवरी, 2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

सं. 38012/32/2006-स्था.-I--कृषि एवं सहकारिता विभाग में अनुभाग अधिकारी सर्वश्री दलजीत कुमार और जगदीश कुमार गुप्ता अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जनवरी, 2007 की अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त होते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

कृषि लागत और मूल्य आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. 2-1/2005-प्रशा.--कृषि लागत और मूल्य आयोग में श्री विशाल मणी भट्ट ने आर्थिक अधिकारी के पद पर उनके चयन के परिणामस्वरूप (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय) 24 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में आर्थिक अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण किया है।

आर. एस. ठाकराण, निदेशक

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 जनवरी 2007

सं. ए-19011/2/2007-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, श्री आर. कथिरेसन, फार्म प्रबंधक, सीपीडीओ, मुम्बई को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अल्पकालीन प्रतिनियुक्ति के आधार पर 11.01.2007 पूर्वाह्न से छः महीने के लिए या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो पशुधन अधिकारी नियुक्त करते हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

कोचीन, दिनांक 18 दिसम्बर 2006

सं. ए-2/7-3/76-77/वाँ-III--अधोहस्ताक्षरी सहर्ष श्री एम. के. राजन, प्रयोगशाला सहायक समाकलित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन को रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में प्रसंस्करण प्रौद्योगिकीविद् (वर्ग 'ख'-राजपत्रित-अननुसचिवीय) के पद पर 18.12.2006 पूर्वाह्न से पदोन्नत करते हैं। वे 18.12.2006 से 2 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

एम. गिरिजा, निदेशक

सं. आई.एफ.पी/वी.ए/1-29/90 वाँ-II--अधोहस्ताक्षरी सहर्ष श्री वर्गीस जाँण, विपणन सहायक, समाकलित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन को रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में विपणन अधिकारी (वर्ग 'ख'-राजपत्रित-अननुसचिवीय) के पद पर 24.02.2006 पूर्वाह्न से पदोन्नत करते हैं। वे 24.02.2006 से 2 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

एस. गिरिजा, निदेशक

संस्कृत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2007

सं. ए-19011/1/2001-स्थापना-I--वर्ष 2000 की 'सी एस एस निदेशकों की उपयुक्तता सूची' में श्री उमेश कुमार के नाम को सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 दिसम्बर, 2006 और 22 दिसम्बर, 2006 के आदेश सं. 21/55/2005-सी एस.1 के अनुसरण में, राष्ट्रपति उक्त श्री उमेश कुमार, जो संस्कृति मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) के उप सचिव हैं, को इसी मंत्रालय में दिनांक 26.12.2006 (पूर्वाह्न) से 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. मुरुगय्यन, अवर सचिव

दिनांक 18 जनवरी 2007

सं. ए-19011/6/2006-स्थापना-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के दिनांक 08 अगस्त, 2006 के पत्र सं. 4/10/2006-ई ओ (एम एम. I) के अनुसरण में, श्री जी कमल वर्धन राव, आई ए एस (केरल : 90) ने दिनांक 11 सितम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से पाँच वर्षों की अवधि के लिए, अर्थात् दिनांक 10 सितम्बर, 2011 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संस्कृति मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

ए. मुरुगय्यन, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. 19011/6/2006-स्थापना (जनजातीय कार्य)--राष्ट्रपति, जनजातीय कार्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव श्री नौशाद आलम को

लोकसभा सचिवालय में रिपोर्ट करने के निदेश के साथ 31.01.2007 अपराह्न से कार्यमुक्त करते हैं।

अनिल काकरिया, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जनवरी 2007

सं. 4(285)/85-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'जी', श्री प्रताप सिंह, (कर्मचारी कोड सं. 96) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.01.2007 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

सं. 4(397)/88-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'जी', डॉ. आर. सी. चोपड़ा, (कर्मचारी कोड सं. 64) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.01.2007 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

सं. 4(364)/88-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'जी', डॉ. यू. सी. पाण्डेय, (कर्मचारी कोड सं. 114) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.01.2007 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

दिनांक 01 फरवरी 2007

सं. 2(8)/2006-का.-I--राष्ट्रपति जी ने श्री ई. के. भारत भूषण, आईएएस (केरल: 1979) को दिनांक 01.02.2007 के पूर्वाह्न से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 01 फरवरी 2007

सं. एनआईसी/पीएफ/2676/2007-का.व.स्था.-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री वी. रामकृष्णन, कर्मचारी कोड सं. 2676 की राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से वैज्ञानिक "ई" के पद से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 10 जनवरी, 2007 की पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं। उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना-I)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 जनवरी 2007

सं. 3-5/2005-प्रशासन-I--राष्ट्रपति सहर्ष सीएसएसएस संवर्ग के प्रधान निजी सचिव, श्री राम रोशन की डाक विभाग में 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति को 30 जून 2007 अथवा जब तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामांकित व्यक्ति द्वारा वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव का पद नियमित आधार पर भरा जाता है अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक के लिए आगे बढ़ाते हैं।

2. यह नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे अधिकारी को ग्रेड में अनिश्चित अवधि तब बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी।

राजेन्द्र कुमार, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

दिनांक 25 जनवरी 2007

सं. 39-1/2006-प्रशासन--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के निम्नलिखित आशुलिपिकों ग्रेड "ग" की 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में निजी सचिव के रूप में तदर्थ पदोन्नति अवधि का दिनांक 30 जून 2007 तक अथवा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामित नियमित अधिकारी उपलब्ध होने अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, विस्तार करते हैं।

1. सुश्री इन्द्रजीत कौर
2. सुश्री एच. के. बिन्द्रा
3. श्री प्रमोद सिंह रावत
4. सुश्री सुशीला महाजन
5. सुश्री देवा प्रभा भल्ला
6. सुश्री बिमला शर्मा
7. श्री आर. रंगाराजन
8. सुश्री कमलेश खुराना
9. श्री वी. पी. रंगा

2. ये नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर हैं और इनसे अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' विलयित (निजी सचिव) ग्रेड में नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता अथवा पदोन्नति तथा पुष्टि का दावा करने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा।

राजेन्द्र कुमार, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. 13-4/2007-एसपीजी-I--डाक विभाग के डाक सेवा समूह 'ख' के अधिकारी, श्री अशोक कुमार पाल, सहायक निदेशक (निरीक्षण)

अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.01.2007 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी 2007

सं. ई(जी.पी.)2001/1/10--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के रेल सुरक्षा बल के निम्नलिखित 3 निरीक्षकों की, 04.06.2004 से, ग्रुप-ए के कनिष्ठ वेतनमान में सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति करने के लिए सहर्ष अनुमोदन करते हैं:-

2001 के लिए पैल

क्रम सं. अधिकारी का नाम

सर्वश्री

1. देवी प्रसाद
2. के. के. शर्मा
3. एस. बी. गोस्वामी

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

पोत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. ए-38020/3/2006-(स्था.-II)--सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली, में केन्द्रीय इंजीनियरी (सड़क) सेवा वर्ग 'क' के अधिकारी, श्री शाम सुन्दर, मुख्य अभियंता, सरकारी सेवा से दिनांक 11.12.2006 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गये हैं।

पी. पी. नायर, अवर सचिव

सं. ए-38020/2/2006-(स्था.-II)--सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली, में केन्द्रीय इंजीनियरी (सड़क) सेवा वर्ग 'क' के अधिकारी, श्री आर. एस. शर्मा, मुख्य अभियंता, सरकारी सेवा से दिनांक 30.11.2006 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गये हैं।

पी. पी. नायर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 2007

सं. ए-22011/2/2005-ई-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखी तारीख से अगले आदेशों तक पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) में पूर्णतः

तदर्थ आधार पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में अवर सचिव (सीएसएस का ग्रेड-1) के पद पर नियुक्त करते हैं:--

क्रम अधिकारी का नाम सं.	अवर सचिव के पद पर नियुक्ति की तारीख
1. श्री पी. पी. नायर (सीएसएस सं. 5603)	27.12.2006 (पूर्वाह्न)
2. श्री ए. के. अरोड़ा (सीएसएस सं. 5626)	27.12.2006 (पूर्वाह्न)

2. इस तदर्थ नियुक्ति से और उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा ग्रेड-1 में नियमित नियुक्ति अथवा वरिष्ठता के लिए चयन सूची में शामिल होने संबंधी दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस तदर्थ नियुक्ति को बगैर कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

पूर्णमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2007

सं. ए-19011/1/2005-सी.एल.एस.-II--राष्ट्रपति जी, श्री सरफराज खान, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, आसनसोल को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से छः माह की अवधि के लिए अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति किए जाने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय धनबाद-I के पीठासीन अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपते हैं।

पी. के. ताम्रकर, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 29th January 2007

No. A. 35011/6/01-Adm.—The President is pleased to appoint Shri R. S. Tomar as Superintendent, President's Gardens, President's Secretariat, with effect from the forenoon of 27th January 2007.

R. S. RANA, Dy. Secy.

The 1st February 2007

No. A. 39011/9/06-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri M. A. Siddiqui, Section Officer, President's Secretariat, retired from Govt. Service with effect from the afternoon of 31st January, 2007.

R. S. RANA, Dy. Secy.

No. A. 34011/4/06-Adm.—The President is pleased to appoint Smt. H. K. Uppal, Assistant, as Section Officer, President's Secretariat with effect from the forenoon of 1st February 2007.

R. S. RANA, Dy. Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 31st January 2007

No. RS/1524/Estt (P)—On attaining the age of superannuation, Shri Devi Dass, Director retired from service with effect from the afternoon of the 31st January, 2007.

P. R. GUHA ROY, Dir.

No. RS/6(iv)/2007/12-Perl.—The services of Dr. Prasenjit Bose, who had been appointed as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the Rajya Sabha Secretariat in the personal staff of Chairman, Committee on Transport, Tourism & Culture (Shri Sitaram Yechury) have been terminated w.e.f. the afternoon of 31st December, 2006.

P. R. GUHA ROY, Dir.

No. RS/6(iv)/2007/13-Perl.—Shri Veeraiah Konduri has been appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the personal staff of Chairman, Committee on Transport, Tourism & Culture (Shri Sitaram Yechury) w.e.f. the forenoon of 1st January, 2007, until further orders.

2. The appointment of Shri Veeraiah Konduri is at the discretion of the present Chairman, Committee on Transport, Tourism & Culture and will be co-terminus with the term of his office.

P. R. GUHA ROY, Dir.

New Delhi-110001, the 1st February 2007

No. RS/1706/Estt. (P)—Consequent on the acceptance of his request for voluntary retirement, Shri T. Nahasamy, Senior Parliamentary Interpreter retired from service with effect from the forenoon of the 1st February, 2007.

C. B. RAI, Under Secy.

CABINET SECRETARIAT

NATIONAL AUTHORITY CHEMICAL WEAPONS
CONVENTION

New Delhi-110021, the 8th January 2007

CORRIGENDUM

No. A. 12018/1/2004-NA—The paras (a)(ii) below column (12) under schedule relating to the post of Deputy Director under the National Authority, Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment rules, 2004 (English version) published in the Gazette of India on January 15, 2004 vide pages 59—63, shall be read as under :—

(a) (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- or equivalent in the parent cadre or Department; or

(iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 6,500—10,500/- or equivalent in the parent cadre or Department; and

RAJU SHARMA, Jt. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 25th January 2007

No. A. 12025/01/2005-Admn. II.—The President is pleased to appoint Shri Gajanan Mali Research Assistant, Town & Country Planning Organisation, Ministry of Urban Development, New Delhi as Research Officer in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on purely ad-hoc deputation basis, for a period of one year with effect from 25.01.2007 (FN) or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

R. K. PARMAR, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF
INDIA

New Delhi-110001, the 29th January 2007

No. 181/1/2006/1388—The President of India is pleased to appoint the following officers as Secretary in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Election

Commission of India with effect from 31st August, 2006 and until further orders :—

1. Sh. Tapas Kumar
2. Sh. Shangara Ram (SC)
3. Sh. K. Ajay Kumar
4. Sh. R. K. Srivastava

RAJESH AGGARWAL, Dir. (Admn.)

New Delhi, the 25th January 2007

No. A. 20/G-A/89—In continuation of the Commission's Notification of even No. dated 8th February, 2006, the term of deputation of Shri C. P. Sharma, Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Election Commission of India is hereby extended for a further period upto 31.01.2008 or until further orders whichever is earlier.

STANDHOPE YUHLUNG, Under Secy.

The 31st January 2007

No. 193/22/01/2007 (ML)/1450—On attaining the age of superannuation, Shri Mohan Lal, Under Secretary in the Election Commission of India, retired from service w.e.f. the afternoon of 31.01.2007.

STANDHOPE YUHLUNG, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 20th December 2006

No. A. 32015/3/2006-Admn. IV (LA)—Pursuant to the Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/8/2006-CS-II dated 31.05.2006 and consequent upon their joining, the President is pleased to appoint Smt. R. Kalai Selvi, Steno Grade 'C' of CSSS cadre as Private Secretary on ad-hoc basis in the scale of Rs. 6,500—10,500/- in the CSSS cadre of Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs w.e.f. 31.05.2006 to 31.12.2006 or till the post is filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier.

2. The above said promotion is made purely on ad-hoc basis and will not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) for the above said period.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

Chennai, the 29th December 2006

No. A. 38013/1/2006-Admn./Chn.—On attaining the age of superannuation Smt. Mythili Balachandran, Private

Secretary in the CSSS Cadre of the Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, Branch Secretariat, Chennai shall stand retired from Government Service with effect from the afternoon of the 31st December 2006.

R. RAJANGAM, Additional Legal Adviser

New Delhi, the 16th January 2007

No. A. 32015/3/2006-Admn. IV (LA)—In continuation of this Department's Notification of even number dated 14.7.2006, 21.7.2006, 3.8.2006, 11.9.2006, 20.12.2006 and in pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/8/2006-CS-II dated 22.12.2006, the President is pleased to extend appointment of the following Grade 'C' Stenographers of CSSS cadre as Private Secretary on ad-hoc basis in the scale of Rs. 6,500—10,500/- in the CSSS cadre of Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs for a further period of six months upto 30.06.2007 or till regular Stenos Grade 'A & B' (Merged) of CSSS become available or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Present place of posting
1	2	3
1.	Smt. Nawaljit K. Ghai	LA
2.	Sh. V. S. Rathore	LA
3.	Sh. T. S. Pandian	LA, Br. Sectt., Chennai
4.	Sh. Virender Kr. Jatav	LD
5.	Ms. Rajlakshmi Sridhar	LA, Br. Sectt., Mumbai
6.	Sh. Prodip Mukherjee	LA, Br. Sectt., Kolkata
7.	Sh. N. K. Grover	LA, CAS
8.	Om Prakash Sharma	LA
9.	Ms. Bimla Verma	LA
10.	V. R. D. Namboodiripad	LD
11.	R. V. S. Bhanuprasad	LA
12.	Ms. Neelam Khatri	LA
13.	Mohd. Hussain	LD, on deputation as Confid. Supdt.
14.	Sh. S K. Chattaraj	LA, Br. Sectt., Kolkata
15.	Ms. P. K. Sathy Devi	LA
16.	Sh. Satish Chandra	LA
17.	Ms. Manju Bala Mehta	LA, LC
18.	Sh. S. C. Aggarwal	LA, LC
19.	Ms. Shashi Gupta	LA
20.	Ms. Indu Chopra	LA, LC

1	2	3
21.	Sh. A. K. sood	LA, LC
22.	Sh. R. K. Vaid	LD
23.	Sh. Mahesh Kumar (SC)	LA
24.	Sh. Surender Singh (SC)	LD
25.	Ms. S. K. Dhawan	LD
26.	Sh. R. S. Shukla	LA
27.	Ms. R. Kalai Selvi	LA, Br. Sectt., Bangalore

2. The above said promotion is made purely on ad-hoc basis and will not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) for the above said peirod.

G. D. SHARMA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 5th January 2007

No. K. 13016/6/2006-US. II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Vidya Bhushan Gupta to be an Additional Judge of the Delhi High Court for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

RAGIV AGARWAL, Additional Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 6th February 2007

No. PF/G/195-Ad. V—The President is pleased to appoint Shri G. Srinivasa Rao, Assistant Director (FCRA) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Ministry of Home Affairs on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 31.1.2007 on deputation basis until further orders.

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

(NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU)

New Delhi-110066, the 15th January 2007

No. 35/9/2005/Ad. I (B)/NRB-12,332—The President is pleased to appoint S/Sh. Anil Chawla, Jacob Paul and B. R. Prasad, Inspectors (Finger Print) on promotion to the post of Deputy superintendent (Finger Print) in Central Finger Print Bureau, National Crime Records Bureau, New Delhi in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- plus Rs. 400/- Special Allowance. Shri Anil Chawla is promoted from the date of DPC i.e. 08.11.2006 and Shri Jacob Paul and Shri B. R. Prasad are promoted w.e.f. 07.12.2006.

B. S. DHUPIA, Asstt. Dir. (Admn.)

INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 5th January 2007

No. A. 19011/4/2006-ISC—The President is pleased to appoint Shri K. P. Mishra, as Director in the Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 21st December 2006 until further orders.

P. B. RAJAPPAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 31st January 2007

No. A. 19011/5/2006-ISC (Adm.)—The President is pleased to appoint Shri Atul Kumar Gupta, IAS (UP :74) as Adviser, Inter-State Copuncil Secretariat, Ministry of Home Affairs in the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India with effect from the forenoon of 29th December 2006.

SUDHIR KUMAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 1st February 2007

No. 4/16/2005-NEC—The President is pleased to appoint Shri H. Vanlalhluta, IA & AS (82) as Financial Adviser in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, with effect from 25th January, 2007 (Forenoon), for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. K. NAYYAR, Dy. Secy.

The 2nd February 2007

No. 1/5/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Pankaj Asthana, IES (UT : 88) as Director in the Ministry of Development of North Eastern Region for a period of five years with effect from 01.02.2007 (Afternoon) or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. K. NAYYAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi-110067, the 17th January 2007

No. 13019/15/2006-Academy (Desk)—The President is pleased to appoint Dr. S. H. Khan, IDes (91) as Deputy Director (Deputy Secretary level) in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie in the

pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. 21.3.2006 (forenoon) for a period of four years.

CHANAN RAM, Under Secy.

No. 13019/14/2006-Academy (Desk)—The President is pleased to appoint Shri Alok Kumar, IAS (UP : 93) as Deputy Director (Deputy Secretary level) in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie in the pay scale of Rs. 12,750-375-16,500/- w.e.f. 1.11.2006 (forenoon) for a period of four years.

CHANAN RAM, Under Secy.

New Delhi, the 1st February 2007

No. 14015/11/2006-AIS(I)-A—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select Lists of 2003, 2004, 2005 and 2006 for the Karnataka Cadre, containing the names of the following members of the State Civil Service of the State of Karnataka, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 2nd November, 2006, towards filling up 02 (two), 02 (two), 06 (six) and 01 (one) vacancies during 2003, 2004, 2005 and 2006 respectively in the Indian Administrative Service :—

SELECT LIST 2003

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	C. Somashekara	09.06.1954
2.	V. B. Patil	19.09.1954

SELECT LIST 2004

1.	K. R. Niranjana	26.07.1954
2.	R. Narayanaswamy	12.01.1950

SELECT LIST 2005

1.	G. Ramachandra	05.06.1952
2.	R. K. Raju	10-06-1953
3.	P. S. Vastrad	10.07.1956
4.	B. Shivappa (ST)	18.10.1951
5.	M.K. Baladevakrishna (SC)	10.06.1953
6.	M. E. Shivalingamurthy	30.11.1953

SELECT LIST 2006

1.	T. A. Parthasarathy	10.03.1953
----	---------------------	------------

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/11/2006-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Karnataka to the Indian Administrative Service against the vacancies for the years 2003, 2004, 2005 and 2006 on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Karnataka Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

SELECT LIST 2003

Sl. No. Name of the Officer

- (S/Shri)
1. C. Somashekara
 2. V. B. Patil

SELECT LIST 2004

1. K. R. Niranjana
2. R. Narayanaswamy

SELECT LIST 2005

1. G. Ramachandra
2. R. K. Raju
3. P. S. Vastrad
4. B. Shivappa (ST)
5. M.K. Baladevakrishna (SC)
6. M. E. Shivalingamurthy

SELECT LIST 2006

1. T. A. Parthasarathy

JAGAN LAL, Under Secy.

New Delhi, the 31st January 2007

No. A-32013/2/2006-Ad. I (G)—The President is pleased to appoint Shri A. K. Srivastava, a Grade-I Officer of CSS, holding the post of Under Secretary on ad-hoc basis in the Department of Food & Public Distribution, as Under Secretary on ad-hoc basis in Department of Personnel and Training with effect from the forenoon of 4th December, 2006, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A-32013/2/2006-Ad. I (G)—The President is pleased to appoint Shri S. K. Arora, a Grade-I Officer of CSS,

holding the post of Under Secretary on ad-hoc basis in Ministry of Textile, as Under Secretary on ad-hoc basis, in Department of Personnel and Training with effect from the forenoon of 28th November, 2006, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A-32013/2/2006-Ad. I (G)—The President is pleased to appoint Shri Chanan Ram, a Grade-I Officer of CSS, holding the post of Under Secretary in Ministry of Civil Aviation, as Under Secretary, in Department of Personnel and Training with effect from the forenoon of 1st November, 2006, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

The 1st February 2007

No. A-32013/4/2007-Ad. I (G)—The President is pleased to appoint Shri Satyananda Mishra, IAS (MP : 73), as Secretary, Department of Personnel and Training (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) with effect from the forenoon of 1st February, 2007, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A-32013/3/2007-Ad. I (G)—The President is pleased to appoint the following Officers of the Indian Administrative Service of 1973 batch, who were holding the post of Additional Secretary in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions as Special Secretary in the rank & pay of Secretary i.e. Rs. 26,000/- (fixed basic) for the period with effect from 2.01.2007 to 31.01.2007, by in-situ upgradation of the post held by them.

(iv) Sh. Satyananda Mishra, IAS (MP : 73)

(v) Smt. Rajni Razdan, IAS (HY : 73)

(vi) Sh. Brahm Dutt, IAS (KN : 73)

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 2nd February 2007

No. 14013/01/2000-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Uttar Pradesh, with effect from the date shown against them :—

Sl. No.	Name	Batch	Date of Confirmation
1.	Sh. Markandey Singh	1990	22.09.1999
2.	Sh. Rajiv Kumar Singh	1990	22.09.1999

G. C. PANDEY, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES)

New Delhi-110001, the 31st January 2007

No. A-19014/1/2007-AR (Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri K. Sanjayan as Under Secretary on ad-hoc basis in the Department of Administrative Reforms & Public Grievances with effect from the forenoon of 31st January, 2007 until further orders.

ANURAG SRIVASTAVA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 16th January 2007

No. Q/PA-I/7/2007—The President is pleased to appoint the following officer presently in Junior Administrative Grade (JAG) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-IV of the Service with effect from the forenoon of 16th January, 2007:—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade After Promotion
1.	Sh. M. Subbarayudu	JAG of IFS	Grade-IV of IFS

2. On promotion to Grade-IV of IFS, the officer relinquished charge of the post in Junior Administrative Grade (JAG) of IFS on the forenoon of 16.01.2007 and assumed charge of the post in Grade-IV of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP)

New Delhi, the 16th January 2007

No. 01/PB-II/2007—The President is pleased to appoint Shri Dolamani Meher, an officer of Grade-II of Stenographers' Cadre of IFS (B) to officiate in Grade-I of the same cadre with effect from 14th July 2005 in terms of Ministry's Office Memorandum No. Q/CAD/611/4/2003 dated 2nd January, 2007.

D. K. BHATTACHARYA, Admn. Officer (PB-II)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 7th December 2006

No. 94 : (F. No. A-19014/48/2004-Ad. I)—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade of CSS for the year 2003 against seniority quota, the President of India is pleased to appoint Shri H. S. Menhadiya, presently working as Section Officer (on ad-hoc basis) in the Department of Revenue and a permanent Assistant of Finance Cadre of the Central Secretariat Service, as Section Officer on Regular basis in the Department of Revenue with effect from 21.11.2006 (F.N.) and until further orders.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 15th December 2006

No. 96 : (F. No. A-38011/10/2006-Ad. I)—Ms. M. H. Kherawala, an officer of the Indian Revenue Service (Income Tax : 1969), posted as Chairperson, Central Board of Direct Taxes in the Department of Revenue retired voluntarily from Government Service on 12 December 2006 (FN) under rule 48 of the CCS (Pension) rules, 1972 to join as Member, Settlement Commission (Income Tax/Wealth Tax), Mumbai.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 2nd January 2007

No. 1 : (F. No. A-38011/9/2006-Ad. I)—Ms. Baljeet Matiyani, an officer of the Indian Revenue Service (Income Tax : 1969), posted as member, Central Board of Direct Taxes in the Department of Revenue retired voluntarily from Government Service on 31 December 2006 (FN) under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972 to join as Income Tax Ombudsman, Delhi.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 2 : (F. No. A-38011/11/2006-Ad. I)—Shri Rajiva Ranjan Singh, an officer of the Indian Revenue Service (IT : 69), posted as Member, Central Board of Direct Taxes in the Department of Revenue retired from Government Service on 31 December 2006 (AN) on attaining the age of superannuation.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 3 : (F. No. A-38013/10/2006-Ad. I)—Shri B. K. Bhardwaj, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue retired from Government Service on 31 December 2006 (AN) on attaining the age of superannuation.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 4 : (F. No. A-38013/9/2006-Ad. I)—Shri Nirban Acharya, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue retired from Government Service on 31 December 2006 (AN) on attaining the age of superannuation.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 8th January 2007

No. 6 : (F. No. A-19011/1/2007-Ad. I)—The President of India is pleased to appoint Shri R. N. Upadhyay, IRS (IT : 1971) as Member of the Central Board of Direct

Taxes (CBDT) in the Ministry of Finance, Department of Revenue with effect from 04.01.2007 (FN) and until further orders.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 7 : (F. No. A-19011/2/2007-Ad. I)—The President of India is pleased to appoint Shri P. K. Mishra-II, IRS (IT : 1971), as Member of the Central Board of Direct Taxes (CBDT) in the Ministry of Finance, Department of Revenue with effect from 04.01.2007 (FN) and until further orders.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 8 : (F. No. A-19011/3/2007-Ad. I)—The President of India is pleased to appoint Shri A. J. Majumdar, IRS (IT : 1971), as Member of the Central Board of Direct Taxes (CBDT) in the Ministry of Finance, Department of Revenue with effect from 04.01.2007 (FN) and until further orders.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 9 : (F. No. A-19011/4/2007-Ad. I)—The President of India is pleased to appoint Shri B. Balagopal, CSS (77) as Joint Secretary to the Government of India in the Department of Revenue, Ministry of Finance with effect from 03.01.2007 (AN) till the date of his superannuation i.e. upto 30.06.2011, or until further orders, whichever event takes place earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 10 : (F. No. A-19011/5/2007-Ad. I)—The President of India is pleased to appoint Ms. Indira Bhargava, Indian Revenue Service (IT : 70) as Chairperson of the Central Board of Direct Taxes in the Department of Revenue Ministry of Finance, w.e.f. 31.12.2006 (AN) and until further orders.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS

New Delhi-1, the 11th December 2006

INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS

No. A-38012/26/2006-Ad-II—The President is pleased to accept the notice for Voluntary Retirement of Shri Rajan Suri, Additional Director, National Academy of Customs, Excise & Narcotics, Hazaribagh from Government Service with effect from 6th September, 2006, under Fundamental Rules-56(k). The acceptance of the notice of voluntary retirement is without prejudice to the legal proceedings pending in the High Court of Kolkata (W. P. No. 616 of

2001), High Court of Orissa at Cuttack (W. P. No. 3657 of 2002) and High Court of Delhi (W. P. No. 14949-51 of 2004).

Subject to the orders passed in the above court cases, the Government reserves the right to take appropriate penal action, as per law, in the disciplinary proceedings initiated against Shri Suri.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

The 15th January 2007

No. 02 of 2007, A-38012/37/2006-AD.II.—The President is pleased to accept the withdrawal of notice of voluntary retirement of Shri S. D. Gadkari, Assistant Commissioner of Central Excise-Thane-II. The Notice of voluntary retirement was accepted vide Notification No. 54/2006 dated 08.12.2006.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

New Delhi, the 6th February 2007

No. 01 of 2007, A-32012/1/2004-Ad. II-B (Vol. II).—The President is pleased to appoint on promotion Shri Narendra Kumar, Chemical Examiner, Grade-I, CRCL, CBEC to officiate as Joint Director in Central Revenue Chemical Services in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from 16.10.2006 until further order.

SUSHMA KATARIA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 17th January 2007

No. A-12011/01/2006-Admn. II.—In continuation of this Department's notification No. A-12011/23/2005-Admn. II dated 24.07.2006, the President is pleased to extend the appointment of the following Principal Private Secretaries of CSSS of Finance Cadre in the same capacity in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad-hoc basis for a further period of six months with effect from 01.01.2007 to 30.06.2007 or till regular Officers becomes available, whichever is earlier :—

- (i) Shri K. Raghuraman
- (ii) Shri M. S. Sharma
- (iii) Shri R. Pradeep Kumar
- (iv) Shri Raj Kumar

2. The ad-hoc promotion of the above officers shall not confer on him any claim for regular appointment or the right to continue indefinitely in the grade of Principal Private Secretary of CSSS. The service rendered by the above officers on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in the grade or for eligibility for promotion to the next higher grade and they will be reverted as and when Select List persons become available.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

The 31st January 2007

No. A-12011/09/2006-Admn. II.—In continuation of this Department's notifications of even number dated the 11th July, 24th July, 28th July and 22nd August, 2006, the President is pleased to extend the appoint of the following Stenographers Grade 'C' of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) of Finance Cadre, to the grade of Stenographer Grade A&B (merged) (designated as Private Secretary) of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad-hoc basis w.e.f. 01.10.2007 to 30.06.2007 or till regular officers become available or until further orders, whichever is earlier :—

1. Smt. Rekha Gupta
2. Shri Anil Kumar Misra
3. Smt. Neeraja Jayaraman
4. Smt. Santosh Malhotra
5. Smt. Rama Murthy
6. Shri J. P. Rohilla
7. Smt. Sunita Varma
8. Smt. Kamlesh Juneja
9. Smt. Sarla Ajbani
10. Shri Yogesh Kumar

2. The ad-hoc appointments of the above Stenographers Grade 'C' as Stenographer Grade 'A & B' (merged) (designated as PS) will be subject to the following terms and conditions :—

- a. The ad-hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A&B' (merged) (PS) of CSSS;
- b. Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 19th January 2007

No. A-19011/7/2005-Admn. II.—The President is pleased to appoint Shri Ashok Chawla, IAS (GJ : 73), Additional Secretary, Department of Economic Affairs (Ministry of Finance), as Special Secretary in the rank and pay of Secretary in the same Department by in-situ upgradation of the post held by him w.e.f. 2nd January, 2007 (F.N.) and until further orders.

S. K. VERMA, Dy. Secy.

BANKING DIVISION

New Delhi, the 6th February 2007

No. A-12034/4/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri S. C. Arya, a regular Research Officer in the

Banking Division of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance to the post of Senior Research Officer (Group A) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 1st February, 2007 on regular promotion basis, until further orders.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

No. A-12034/4/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rajiv Kumar, a regular Research Officer in Banking Division of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance to the post of Senior Research Officer (Group A) for a period of six months on an ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 1st February, 2007 or till repatriation of the regular incumbent of the post from deputation or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment shall not confer on Shri Rajiv Kumar any right to continue in the grade indefinitely or for regular appointment or to claim seniority in the Grade of Senior Research Officer.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 31st January 2007

No. A-12026/3/2005-Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Ranjan, an Officer of the Central Secretariat Service, as Under Secretary in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on purely ad-hoc basis with effect from the forenoon of the 17th January, 2007 and until further orders.

2. The above ad-hoc appointment is subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I;
- (ii) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF DISINVESTMENT)

New Delhi-110003, the 1st February 2007

No. 9/1/2007-Admn./Estt.—Shri P. V. Bhide, IAS (AP : 73), has assumed charge of the post of Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Disinvestment) with effect from the forenoon of 1st February, 2007.

S. K. BANDYOPADHYAY, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-110001, the 2nd January 2007

No. PFG (922)/06-Ad. I.—Consequent upon his Promotion to the Senior Time Scale ((Legal Branch) of the Indian Company Law Service (ICLS) vide Ministry of Company Affairs Order No. A-32011/5/2006-Admn.-II dated 19/12/2006, the President is pleased to appoint Shri G. K. Gupta as Deputy Director (Inspection) at the Headquarters in the Ministry of Company Affairs in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 26/12/2006.

N. K. VIG, Under Secy.

The 4th January 2007

No. PFG (923)/06-Ad. I.—Consequent upon his Promotion to the Senior Time Scale ((Accounts Branch) of the Indian Company Law Service (ICLS) vide Ministry of Company Affairs Order No. A-32011/5/2006-Admn.-II dated 19/12/2006, the President is pleased to appoint Shri S. P. Kumar as Deputy Director (Inspection) at the Headquarters in the Ministry of Company Affairs in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 20/12/2006 until further orders.

N. K. VIG, Under Secy.

The 17th January 2007

No. A-12023/15/2006-Ad. IV.—The President is pleased to appoint Smt. Neelam Gusain, to the post of Private Secretary, in the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (MRTPC) New Delhi, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from 28.11.2006 (FN).

N. K. VIG, Under Secy.

No. A-12023/15/2006-Ad. IV.—The President is pleased to appoint Smt. Neerja Sharma, to the post of Senior Private Secretary, in the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (MRTPC) New Delhi, in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/-, on ad-hoc basis with effect from 27.11.2006 (FN), for a period of six months or until further orders whichever event takes place earlier.

N. K. VIG, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 31st January 2007

No. 1/2007, 6/1179/77/HRD-I/691—On attaining the age of superannuation Sh. H. L. Aswal, Joint Director

General of Foreign Trade, in this Office has retired from Government Service with effect from 31.1.2007 (AN).

R. S. BISHT, Dy. Dir. Gen. of Foreign Trade

New Delhi, the 1st February 2007

No. 2/2007, F. No. 6/2424/2007/HRD-I/695.—Dr. Shyam S. Agarwal, IAS (RJ : 80) has assumed the charge of the post of Additional Director General of Foreign Trade in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- in the Directorate General of Foreign Trade w.e.f. the forenoon of 29th January, 2007, for a period of 5 years or until further orders.

MUKESH BHATNAGAR,
Jt. Dir. Gen. of foreign Trade

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 24th January 2007

No. 1/2007 (A-12022/11/2006-Estt.).—The President is pleased to appoint Sh. Ranjan Khanna, IRS (C & CES-94) as Deputy Secretary in the Ministry of Textiles, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, with effect from the afternoon of 23rd January, 2007 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

J. P. DUTT, Under Secy.

The 2nd February 2007

No. 02/2007 (.) F. No. A-46011/13/2001-Estt. (.)—The President is pleased to extend the tenure of Dr. Harsharan Das, IAS (UP : 86) to the post of Additional Textile Commissioner in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai, on central deputation basis, for a period of one year beyond 22.01.2007 i.e. upto 22.01.2008.

J. P. DUTT, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 19th January 2007

No. A-19011/30/2006-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Atul Kaushik, CSS as Director in the Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- w.e.f. the forenoon of 11.12.2006.

2. Shri Atul Kaushik, CSS has assumed the charge of the office of the Director in the Ministry of Petroleum & Natural Gas on the aforesaid date.

SHRI PRAKASH, Under Secy.

The 22nd January 2007

No. A-19011/14/2005-Estt.—The President is pleased to further extend the ad-hoc promotion of Shri S. K. Dang

as Senior Principal Private Secretary borne on the cadre of Ministry of Petroleum and Natural Gas in the pay scale of Rs. 12,000—16,500/- on ad-hoc basis upto 30.06.2007 or till regular Sr. PPSs become available or until further orders, whichever is earlier. This extension is in terms of Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/20/2005-CS. II dated 29th December, 2006.

2. The continuation of ad-hoc promotion of Shri S. K. Dang beyond 31.12.2006 to the post of Sr. PPS is purely ad-hoc in nature and shall not confer on him any right to continue indefinitely or to claim seniority in the post of Sr. PPS of CSSS.

SHRI PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 5th January 2007

No. 3/11/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri G. Srinivas, IAS (OR : 90) as Director in the Ministry of Mines w.e.f. 02.01.2007 (FN) for a balance period upto 19.08.2009 or until further orders, whichever event takes place earlier.

NAWAL KISHORE, Dir.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 31st January 2007

No. A-32013/1/2005-Admn.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Sh. R. L. Meena as Joint Advisor in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises for a further period of six months w.e.f. 18.1.2007 or till the post in question is filled up on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

A. K. TRIPATHI, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 22nd December 2006

No. A-19011/13/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Uttam Prakash, as Under Secretary (Grade-I of CSS) on ad-hoc basis in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 22.12.2006 (F/N).

In terms of the Department of Personnel & Training's Order No. 5/8/2006-C.S. I (Desk) (pt.) dated 12.12.2006, the appointment will be subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.

- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

ELANGBAM ROBERT SINGH, Under Secy.

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION**

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 6th February 2007

No. A-12011/11/2005-Estt.—The President is pleased to promote Shri J. N. Prajapati, a regular Assistant Director (Legal Metrology) and Deputy Director (ad-hoc) in the Department of Consumer Affairs, as Deputy Director (LM) in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis with effect from the forenoon on 17th January, 2007 in the Regional Reference Standards Laboratory, Bhabaneswar and until further orders.

S. K. NAYAK, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 31st January 2007

No. A-38012/6/2006-S.R.A.—On attaining the age of superannuation, Shri K. H. Borker, Deputy Director (S&R)

of the S & R Division of the Department of food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution who belongs to Group 'A' General Central Services, has retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st December, 2006.

S. S. GUPTA, Under Secy.

No. A-38012/4/2006-S.R.A.—On attaining the age of superannuation, Shri R. K. Goyal, Assistant Director (S & R) of the S & R Division of the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution who belongs to Group 'A' General Central Services, has retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st December, 2006.

S. S. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 23rd January 2007

CORRIGENDUM

No. 17012/01/2006-IFS-II.—In the Government of India Notification of even no. 24.11.2006 the name at Sl. No. 28 i.e. Sh. Dharmendra Pratap Singh stands deleted.

G. DEVNANI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF AYUSH)

New Delhi, the 12th January 2007

No. Z. 16011/27/2006-R & P (Ay.)/RTI.—In supersession of the earlier order No. Z. 28015/4/2005-Ayush (Estt.-I) dated 5.9.2006 and in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of Department of Ayush are hereby designated as Assistant Public Information Officers in respect of the specific matters mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Telephone No.	Subject matter
1	2	3	4	5
1.	Sh. A. K. Nigam	Under Secretary	23327671	a. Education Policy Section. b. Education & Cooperation (E & C) c. Hospital & Dispensary d. National Medicinal Plants Board e. Ayurveda Hospital Lodhi Road
2.	Sh. A. K. Rana	Under Secretary	23327688	a. (AYUSH E-I) Administration of Technical Officers/Staff b. Vigilance matters c. Files relating to APC, PLIM & HPL d. Expansion of AYUSH Dispensaries e. Special Cell

1	2	3	4	5
3.	Sh. B. B. Sharma	Under Secretary	23351932	a. Unani Desk including CCRUM, NIUM, CCIM, IMCC Act. b. IEC work other than IEC Scheme component implemented through NGOs. c. Parliament Coordination d. Extra Mural Research/Golden Triangle Partnership
4.	Sh. Anshuman Sharma	Under Secretary	23351885	a. (AYUSH E-II) Administration of Secretariat staff and General Admin. b. Yoga & Naturopathy Desk c. IC & IH
5.	Sh. M. L. Sidana	Under Secretary	23327688	a. Homoeo Desk. b. Right to Information c. (P & C) (Including Public Grievances)
6.	Sh. G. C. Gaur	T. O. (Ay.)	23351932	a. DCC

VERGHESE SAMUEL, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 29th December 2006

No. 27-2559/2004-E-I.—The President is pleased to allow Shri Ashok Kumar, a Grade-I Officer (Under Secretary) of Central Secretariat Service in the Department of Agriculture & Cooperation, to retire voluntarily from the Government service with effect from the forenoon of 29th December, 2006, under Rule 48(1)(a) of CCS (Pension) Rules, 1972.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 8th January 2007

No. 12022/14/2005-E.I.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of the following Principal Private Secretary (Rs. 10,000—15,200/-) borne on the cadre of Department of Agriculture & Cooperation up to 30.06.2007 or till regular PPSs become available or till further orders, whichever is earlier :—

1. Sh. Sunil Kumar Kathuria
2. Sh. Satish Kumar Gupta
3. Sh. S. P. Verma
4. Sh. V. K. Verma
5. Sh. D. D. Sadhwani
6. Sh. Harinder Kumar
7. Smt. Ambika Changrani
8. Sh. Ram Sewak

2. The continuation of ad-hoc promotion of the above officers to the post of PPS beyond 31.12.2006 is purely ad-hoc in nature and shall not confer any right on them to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 17th January 2007

No. 19011/523/07-E. II.—The President is pleased to appoint Shri Narain in the Department of Agriculture & Cooperation as Director (OL) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- on promotion basis with effect from the forenoon of 29th December, 2006.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 18th January 2007

No. 32011/14/2006-E-II.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of the following Assistant Directors (Crops) in the Department of Agriculture and Cooperation in the post of Assistant Commissioner (Crops) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same Department with effect from the dates mentioned against

their names for a period of six months or till regular appointment is made, whichever is earlier.

- (i) Sh. C. Y. Barapatre 17.1.2007
- (ii) Sh. Om Prakash Choudhary 11.1.2007
- (iii) Sh. R. N. Verma 11.1.2007

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 22nd January 2007

No. 27-2700/2007-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Khushwant Singh Sethi, IFS (MT : 90) as Director in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- w.e.f. the afternoon of 15th January, 2007.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 23rd January 2007

No. 12023/4/2004-E.II (E.V.).—The President is pleased to appoint Shri M. P. Adarana Kumar, Assistant Director, Department of Agriculture, Government of Andhra Pradesh, as Assistant Commissioner (Quality Control/Certification) in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- in the Department of Agriculture & Cooperation on deputation basis, with effect from the forenoon of 12th December, 2006, for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 24th January 2007

No. 19011/521/2007-E. II.—The President is pleased to appoint Shri Rakesh Aggarwal, ISS, as Assistant Director (Fert. Stat.), (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/- Group 'A' Gazetted in the Department of Agriculture & Cooperation w.e.f. 8.12.2006 (F.N.) until further orders.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 29th January 2007

No. 19011/486/05-E.II.—Shri N. S. Thakur, Assistant Director (Crops) in the Department of Agriculture & Cooperation stands retired from Government service with effect from the afternoon of 31st January 2007 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 31st January 2007

No. 19011/518/06-E.II.—Sh. M. S. Bisht, Assistant Director (O. L.) in the Department of Agriculture &

Cooperation stands retired from Government service with effect from the afternoon of 31st January 2007 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. 38012/32/2006-E.I.—Smt. Daljit Kumar and Sh. Jagdish Kumar Gupta, Section Officers in the Department of Agriculture & Cooperation retire from Government service with effect from the afternoon of 31st January, 2007 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

COMMISSION FOR AGRICULTURAL COSTS AND PRICES

New Delhi, the 31st January 2007

No. 2-1/2005-Admn.—Consequent upon his selection to the post of Economic Officer (General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial), Sh. Vishal Mani Bhatt has assumed the charge of the post of Economic Officer in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on deputation basis for a period of 3 years in the Commission for Agricultural Costs and Prices with effect from the forenoon of 24th January, 2007.

R. S. THAKRAN, Dir.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & FISHERIES)

New Delhi, the 18th January 2007

No. A-19011/2/2007-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri R. Kathiresan, Farm Manager, CPDO, Mumbai as Livestock Officer in the D/o Animal Husbandry, Dairying & Fisheries in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on short-term deputation basis w.e.f. the forenoon of 11.01.2007 for a period of six months or until further orders, whichever is earlier.

P. L. MEENA, Under Secy.

Cochin, the 18th December 2006

No. A2/7-3/76-77/Vol. III.—The undersigned is pleased to promote Shri M. K. Rajan, Laboratory Asst. Integrated Fisheries Project, Cochin to the post of Processing Technologist Group 'B' Gazetted Non-Ministerial in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 18.12.2006 (FN). He will be on probation for a period of 2 years with effect from 18.12.2006.

Sd/- (ILLEGIBLE)
Dir.

No. IFP/V-A/1-29/90 Vol. II.—The undersigned is pleased to promote Shri Varghese John, Marketing Asst. Integrated

Fisheries Project, Cochin to the post of Marketing Officer Group 'B' Gazetted Non-Ministerial in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 24.2.2006 (FN). He will be on probation for a period of 2 years with effect from 24.2.2006.

Sd/- (ILLEGIBLE)
Dir.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 12th January 2007

No. A-19011/1/2001-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the CSS Directors' suitability List for the year 2000 and in pursuance of Department of Personnel & Training's Orders No. 21/55/2005-CS. I dated 6th December, 2006 & 22nd December, 2006, the President is pleased to appoint Shri Umesh Kumar, Deputy Secretary of the Central Secretariat Service (CSS) in the Ministry of Culture as Director in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the same Ministry with effect from the forenoon of 26.12.2006.

A. MURUGAIYAN, Under Secy.

The 18th January 2007

No. A-19011/6/2006-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer) Communication No. 4/10/2006-EO (MM-I) dated 8th August, 2006, Shri G. Kamala Vardhana Rao, IAS (KL : 90) has assumed the charge of the post of Director in the Ministry of Culture in the forenoon of 11th September, 2006 for a period of five years i.e. upto 10th September, 2011 or until further orders, whichever event takes place earlier.

A. MURUGAIYAN, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 31st January 2007

No. 19011/6/2006-Estt.—The President is pleased to relieve Shri Naushad Alam, Additional Private Secretary to Minister for Tribal Affairs from his duties with effect from the afternoon of 31.01.2007 with the direction to report to Lok Sabha Secretariat.

ANIL KAKRIA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 29th January 2007

No. 4(285)/85-Pers. I.—On attaining the age of superannuation, Shri Partap Singh, Scientist 'G' (Emp. Code

No. 96) in the Department of Information Technology will be retiring from service with effect from afternoon of 31.01.2007.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

No. 4(397)/88-Pers. I.—On attaining the age of superannuation, Dr. R. C. Chopra, Scientist 'G' (Emp. Code No. 64) in the Department of Information Technology will be retiring from service with effect from afternoon of 31.01.2007.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

No. 4(364)/88-Pers. I.—On attaining the age of superannuation, Dr. U. C. Pandey, Scientist 'G' (Emp. Code No. 114) in the Department of Information Technology will be retiring from service with effect from afternoon of 31.01.2007.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

The 1st February 2007

No. 2(8)/2006-Pers. I.—The President is pleased to appoint Shri E. K. Bharat Bhushan, IAS (KL : 1979) as Joint Secretary and Financial Adviser in the Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from the forenoon of 01.02.2007.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 1st February 2007

No. NIC/PF/2676/2007/P&E-I.—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Shri V. Ramakrishnan, Emp. Code : 2676 from the post of Scientist "E", National Informatics Centre, New Delhi from the forenoon of 10/01/2007 and he is relieved from his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (P&E-I)

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 24th January 2007

No. 3—5/2005-Admn.—The President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment of Shri Ram Roshan, Principal Private Secretary of CSSS as Senior Principal Private Secretary in the Department of Posts in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- for the period upto 30th June, 2007 or till regular Sr. PPS nominated by DOP&T become available or until further orders, whichever is earlier.

2. This appointment is purely on ad-hoc basis and will not bestow on the officer any right to continue in the grade indefinitely or for regular appointment or seniority in the grade of Senior Principal Private Secretary of Central Secretariat Stenographers Service.

RAJINDER KUMAR, Asst. Dir. Gen. (Admn.)

The 25th January 2007

No. 39-1/2006-Admn.—The President is pleased to extend the period of ad-hoc promotion of the following Stenographers Grade 'C' of CSSS as Private Secretaries in the Department of Posts in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- for the period upto 30th June, 2007 or till regular Private Secretaries nominated by DOP&T become available or until further orders, whichever is earlier.

1. Ms. Inderjeet Kaur
2. Ms. H. K. Bindra
3. Sh. Pramod Singh Rawat
4. Ms. Sushila Mahajan
5. Ms. Dev Prabha Bhalla
6. Ms. Bimla Sharma
7. Sh. R. Rengarajan
8. Ms. Kamlesh Khurana
9. Sh. V. P. Ranga

2. These appointments are purely on ad-hoc basis and will not bestow on the officers any claim for regular appointment, seniority or eligibility for promotion and confirmation in Steno Grade 'A&B' merged (Private Secretaries) of Central Secretariat Stenographers Service.

RAJINDER KUMAR, Asst. Dir. Gen. (Admn.)

New Delhi-110001, the 31st January 2007

No. 13-4/2007-SPG.—Shri Ashoke Kumar Paul, Asstt. Director (Inspection), an officer of Postal Service Group 'B' in Department of Posts, is retiring from Govt. service w.e.f. 31.01.2007 (A/N) on attaining the age of superannuation.

B. P. PANT, Asstt. Dir. Gen. (SGP)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 25th January 2007

No. E (GP) 2001/1/10.—The President is pleased to approve of the undermentioned 3 Inspectors (Group 'C') of Railway Protection Force of Indian Railways being appointed on regular basis to the post of Assistant Security

Commissioner in Junior Scale of Group 'A' with effect from 4.6.2004.

Panel for the year 2001

Sl. No.	Name of the officer
---------	---------------------

- | | |
|----|-------------------|
| 1. | Sh. Devi Prasad |
| 2. | Sh. K. K. Sharma |
| 3. | Sh. S. B. Goswami |

MATHEW JOHN, Secy./Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS
(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 31st January 2007

No. A-38020/3/2006-E-II.—Shri Sham Sunder, Chief Engineer, an officer of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' in the Department of Road Transport & Highways, New Delhi retired from Government service voluntarily on 11.12.2006 (FN).

P. P. NAIR, Under Secy.

No. 3-38020/2/2006-E-II.—Shri R. S. Sharma, Chief Engineer an officer of Central Engineering Service (Roads), Group 'A' in the Department of Road Transport & Highways, New Delhi is retired from Government service voluntarily on 30.11.2006 (FN).

P. P. NAIR, Under Secy.

New Delhi, the 24th January 2007

No. A-22011/2/2005-E-I.—The President is pleased to appoint the following regular Section Officers of Central Secretariat Service as Under Secretaries (Grade-I of CSS) in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways (Department of Road Transport & Highways) on purely ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- from the dates mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Appointment as Under Secretary
1.	Sh. P. P. Nair (CSL No. 5603)	27.12.2006 (F.N.)
2.	Sh. A. K. Arora (CSL No. 5626)	27.12.2006 (F.N.)

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I. The ad-hoc appointment

may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 7th February 2007

No. A-19011/1/05-CLS-II.—The President is pleased to entrust the additional charge of the post

of Presiding Officer of the CGIT-cum-Labour Court-I, Dhanbad to Sh. Sarfaraz Khan, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court, Asansol for a period of six months with effect from the date of assumption of charge of the post or till the post is filled on regular basis or until further orders whichever is the earliest.

P. K. TAMRAKAR, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2007।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2007.